

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
02.12.2015 को लोक सभा में  
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 544.

परमाणु वैज्ञानिकों की मौतें

544. श्री दुष्यंत चौटाला :  
श्री विनायक भाऊराव राऊत :  
श्री राहुल शेवाले :  
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में वर्ष 2009-2013 के बीच 11 परमाणु वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने वैज्ञानिकों की मौतों के रहस्य का पता लगाने के लिए विशेष जाँच करवाई है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) सरकारी संगठनों/संस्थानों में कार्य कर रहे परमाणु वैज्ञानिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय ( डॉ. जितेन्द्र सिंह ) :

- (क) इस अवधि के दौरान, परमाणु ऊर्जा विभाग के नौ वैज्ञानिकों एवं दो अनुसंधान अध्येताओं सहित 11 अप्राकृतिक मौतें हुईं। अप्राकृतिक मौतों के इन सभी मामलों की जाँच पुलिस द्वारा की गई और किसी भी मामले को "रहस्यमय" श्रेणी में नहीं रखा गया।
- (ख) विवरण अनुबंध I में दिया गया है।
- (ग) जी, नहीं, परंतु, वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान अध्येताओं की मौत का विस्तृत विश्लेषण किया गया, और कुछ भी अप्रत्याशित सामने नहीं आया।
- (घ) आवश्यक नहीं।
- (ड.) परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों/अभियंताओं की, कार्य स्थल पर एवं विभागीय आवासीय परिसर में सुरक्षा की जाँच गृह मंत्रालय की एजेसी द्वारा नियमित रूप से की जाती है, और उनके सुझाव के अनुसार व्यवस्थाएं की गई हैं।

01.01.2009 से 31.12.2013 के बीच विभाग के वैज्ञानिकों की अप्राकृतिक मौतों का विवरण

क्रम सं.	दिनांक	पदनाम	अप्राकृतिक मौत का प्रकार	जाँच एजेंसी का नाम	अप्राकृतिक मौत का कारण
1	29.12.2009	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	रसायन प्रयोगशाला, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में आग लगने की दुर्घटना के कारण हुई मौत।	पुलिस स्टेशन, ट्रॉम्बे, मुंबई	रसायन प्रयोगशाला में आग लगने की दुर्घटना
2	29.12.2009	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र			
3	09.04.2009	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	नागपुर में सड़क दुर्घटना।	कोराडे पुलिस स्टेशन, नागपुर, महाराष्ट्र	दुर्घटना के कारण मौत
4	13.06.2009	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	काली नदी में डूबकर आत्महत्या।	मल्लापुर पुलिस स्टेशन, उत्तरी कारवार, कर्नाटक	व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या
5	22.02.2010	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	निवास स्थान पर मृत पाए गए।	गांवदेवी पुलिस स्टेशन, मुंबई	गला घोटकर की गई हत्या। हत्यारे का पता नहीं चला।
6	03.03.2010	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	निवास स्थान पर फांसी लगाकर आत्महत्या।	ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन, मुंबई	निवास स्थान पर फांसी लगाकर आत्महत्या।
7	10.04.2010	वैज्ञानिक अधिकारी/डी, आरआरकैट	फांसी लगाकर आत्महत्या।	राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, इंदौर	फांसी लगाकर आत्महत्या।
8	01.11.2010	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	फांसी लगाकर आत्महत्या।	तुर्भे पुलिस स्टेशन, नवी मुंबई	लंबी बीमारी के कारण आत्महत्या
9	20.10.2012	वैज्ञानिक अधिकारी/सी, भापासं	निवास स्थान पर फांसी लगाकर आत्महत्या।	रावतभाटा पुलिस स्टेशन, राजस्थान	जाँच चल रही है
10	14.03.2013	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	निवास स्थान पर फांसी लगाकर आत्महत्या।	गोवंडी पुलिस स्टेशन, मुंबई	व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या
11	04.10.2013	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	पऊवि, कलपाक्कम में समुद्री जल लेने वाली जेट्टी क्षेत्र में, समुद्र में छलांग लगाकर आत्महत्या।	पुहुपत्तनम पुलिस स्टेशन, कलपाक्कम	समुद्र में छलांग लगाकर आत्महत्या

नोट : उपरोक्त 11 मामलों में से दो मामले औद्योगिक अग्नि दुर्घटना के कारण, एक मामला सड़क दुर्घटना, सात मामले आत्महत्या एवं एक मामला हत्या का है।